

GENERAL KNOWLEDGE (सामान्य ज्ञान)

1. What is the name of India's fastest Computer?
भारत के सबसे तेज सुपर कम्प्युटर का नाम क्या है?
(a) Super Computer (सुपर कम्प्युटर)
(b) Pram Yuva II (परम युवा II)
(c) Both a & b (a और b दोनों)
(d) None of these (कोई नहीं)
2. When world wetlands day observed?
विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है?
(a) 2nd February (2 फरवरी)
(b) 2nd January (2 जनवरी)
(c) 3rd February (3 फरवरी)
(d) None of these (कोई नहीं)
3. Double Decker coaches were first introduced on Indian Railways in -
भारत में डबल डेकर ट्रेनों की शुरुआत कब हुई?
(a) 1975 (b) 1955
(c) 1969 (d) 2007
4. President of India has approved the conferment ofPadma awards.
भारत के राष्ट्रपति ने कितने पद्म पुरस्कारों को अनुमोदन प्रदान कर दिया है?
(a) 108 (b) 801
(c) 118 (d) 918
5. Coal India Ltd. was formed as a holding company in
कोल इंडिया लिमिटेड की स्थापना..... में एक होल्डिंग कंपनी के रूप में कब हुई?
(a) 1957 (b) 1975
(c) 2007 (d) 2006
6. Former West Bengal Governor andViren J. Shah died in Jordan.
पश्चिम बंगाल के पूर्व राज्यपाल औरवीरेन जे. शाह का जॉर्डन ने निधन हो गया।
(a) Journalist (पत्रकार)
(b) Industrialist (उद्योगपति)
(c) Scientist (वैज्ञानिक)
(d) Economist (अर्थशास्त्री)
7. How many writers were honoured with SAARC Literature Award 2013?
सार्क साहित्य पुरस्कार 2013 से कितने लेखकों को सम्मानित किया गया है?
(a) 3 (b) 4
(c) 5 (d) 7
8. Where third Buddhist council is concerned?
तीसरी बुद्ध सभा कहाँ हुई थी?
(a) Patliputra (पाटलीपुत्र)
(b) Vaishali (वैशाली)
(c) Vatapai (वतपाई)
(d) None of these (कोई नहीं)
9. Tulsidas composed his 'Ramcharitramansa' in the reign?
तुलसीदास ने 'रामचरितमानस' किसके शासनकाल में रचा था?
(a) Babur (बाबर) (b) Akbar (अकबर)
(c) Aurangzeb (औरंगजेब)
(d) None of these (कोई नहीं)
10. The original name of Mumtaz Mahal was -
मुमताज महल का मूल नाम क्या था?
(a) Arjumand Bano Beghum (अर्जुमंद बानो बेगम)
(b) Ladli Beghum (लाड़ली बेगम)
(c) Mehrunnisa (मेहरुन्निशा)
(d) Roshan Ara (रोशन आरा)
11. During the Mughal rule, the copper coin was known as -
मुगल के राज्य में ताँबा का सिक्के को क्या कहते थे?
(a) Rupee (रूपये) (b) Dam (दम)
(c) Tanka (टँका) (d) Shamsi (शम्सी)
12. Shivaji was crowned in the year 'शिवाजी' को राजा किस वर्ष बनाया गया?
(a) 1664 (b) 1666
(c) 1670 (d) 1674
13. Shivaji died in the year -
'शिवाजी' की मृत्यु किस वर्ष हुई थी?
(a) 1676 (b) 1677
(c) 1678 (d) 1680

14. Shivaji defeated the Mughals in the battle of -
शिवाजी ने मुगलों को किस लड़ाई में परास्त किया?
(a) Purandhar (पुरन्धर)
(b) Raigarh (रायगढ़)
(c) Salhar (सल्हर)
(d) Shivner (शिवनेर)
15. The French East India company was formed in -
फ्रांसिस इस्ट इंडिया कम्पनी का निर्माण कब हुआ था?
(a) 1600 (b) 1660
(c) 1664 (d) 1668
16. A menu in computer contains a list of-
कम्प्यूटर में 'मेनू' किसकी सूची रखता है?
(a) Commands (कमान्ड)
(b) Data (डाटा)
(c) Objects (आब्जेक्ट)
(d) Reports (रिपोर्ट्स)
17. In computer at which button is help menu available?
कम्प्यूटर में 'हेल्प मेनु' किस बटन में होता है?
(a) End (इंड) (b) Start (स्टार्ट)
(c) Turn Off (टर्न ऑफ) (d) Restart (रीस्टार्ट)
18. How many island of India are located in the Bay of Bengal?
भारत के कितने द्वीप बंगाल की खाड़ी पर अवस्थित है?
(a) 190 (b) 204
(c) 300 (d) 210
19. Kashmir Himalayas is famous for its
कश्मीरी हिमालय किसके लिये मशहूर है -
(a) Scenic Beauty (सुन्दर वादी)
(b) Dal Lake (डल झील)
(c) Glaciers (ग्लेशियर)
(d) Poverty (गरीबी)
20. Nanga Parbat has a height ofmeter
नंगा पर्वत की उँचाई मीटर में क्या है?
(a) 8126 (b) 8136
(c) 8137 (d) 8138
21. The constitution of India was adopted on.....
भारत का संविधान कब लागू किया गया?
(a) 26th January, 1950 (26 जनवरी, 1950)
(b) 26th January, 1949 (26 जनवरी, 1949)
(c) 26th November, 1949 (26 नवम्बर 1949)
(d) 15th August, 1947 (15 अगस्त 1947)
22. Who founded the 'Amrit Bazar Patrika'?
अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की?
(a) Girish Chandra Ghosh (गिरिश चंद्र घोष)
(b) Harish Chandra Mukherjee (हरिश चन्द्र मुखर्जी)
(c) Surendra Nath Banerjee (सुरेन्द्र नाथ बनर्जी)
(d) Sisir Kumar Ghosh (शिशिर कुमार घोष)
23. Who, among the following, was called 'Tagore of Punjab'?
'पंजाब का टैगोर' किसे कहा गया था?
(a) Puran Singh (पुरन सिंह)
(b) Mohan Singh (मोहन सिंह)
(c) Kartar Singh Duggal (करतार सिंह दुग्गल)
(d) Amrita Pritam (अमृता प्रितम)
24. The freedom fighter who died in Jail due to hunger strike was -
भूख हड़ताल की वजह से किस स्वतंत्रता सेनानी की मृत्यु कारागार में हुई थी?
(a) Bhagat Singh (भगत सिंह)
(b) Bipin Chandra Pal (बिपिन चंद्र पाल)
(c) Jatin Das (जतिन दास)
(d) Subhash Chandra Bose (सुभाष चंद्र बोस)
25. When did Cabinet Mission arrive in India?
'कैबिनेट मिशन' भारत में कब शुरू हुई ?
(a) 1942 (b) 1945
(c) 1946 (d) 1947

GENERAL SCIENCE (सामान्य विज्ञान)

1. Parasec is the unit of -
पारासेक किसकी इकाई है?
(a) Distance (दूरी) (b) Time (समय)
(c) Intensity of Light (प्रकाश की तीव्रता)
(d) Magnetic Line (चुम्बकीय रेखा)
2. One light year is approximately equal to -
एक प्रकाश वर्ष लगभग किसके बराबर होता है?
(a) 10^{11} km (कि.मी.) (b) 10^{15} km (कि.मी.)
(c) 10^{16} km (कि.मी.) (d) 10^{20} km (कि.मी.)
3. Surface tension depends on -
पृष्ठ तनाव किसपर निर्भर करता है?
(a) Nature of the liquid (द्रव्य की प्रकृति)
(b) Temperature of the Liquid
(द्रव्य का तापमान)
(c) Atmospheric Pressure (वातावरण दबाव)
(d) All of these (उपरोक्त सभी)
4. Earliest thermometer was developed by
थर्मामीटर का वर्तमान स्वरूप किसने विकसित किया?
(a) Celsius (सेल्सियस)
(b) Kelvin (केल्विन)
(c) Fahrenheit (फारेनहाइट)
(d) Galileo (गैलिलियो)
5. Mercury thermometers can be used to
measure temperature upto
पारा थर्मामीटर का उपयोग तापमान मापने के लिए कितने
डिग्री सेल्सियस तक किया जा सकता है?
(a) 260°C (b) 100°C
(c) 360°C (d) 500°C
6. Which of the following substances has
greatest specific heat?
निम्न में से किस पदार्थ के पास सबसे ज्यादा विशिष्ट ताप
होता है?
(a) Iron (लोहा) (b) Water (पानी)
(c) Copper (ताँबा) (d) Mercury (पारा)
7. Sound waves cannot pass through above
ध्वनि तरंग किसमें गमन नहीं कर सकती है?
(a) A solid-liquid mixture
(ठोस और द्रव्य का मिश्रण)
(b) An ideal gas (आदर्श गैस)
(c) A liquid gas mixture (द्रव्य गैस मिश्रण)
(d) A perfect vacuum (एक पूर्ण निर्वात स्थान)
8. The loudness of sound depends upon
ध्वनि की तीव्रता किसपर निर्भर करती है?
(a) Velocity (गति)
(b) Pitch (पीच)
(c) Amplitude (एम्प्लीच्यूड)
(d) Wavelength (तरंगदैर्घ्य)
9. In vacuum the speed of light depends upon:
निर्वात में प्रकाश का वेग किसपर निर्भर करती है?
(a) Frequency (आवृत्ति)
(b) Wavelength (तरंगदैर्घ्य)
(c) Velocity of the source of light
(प्रकाश के स्रोत की गति)
(d) None of these (कोई नहीं)
10. The primary cell is -
प्राथमिक कोशिका है -
(a) Secondary Cell (द्वितीयक कोशिका)
(b) Primary Cell (प्रारंभिक कोशिका)
(c) Both a & b (a और b दोनों)
(d) None of these (कोई नहीं)
11. Neutron was discovered by
न्यूट्रॉन की खोज किसने की -
(a) J. J. Thomson (जे. जे. थॉमसन)
(b) Chadwick (चैडविक)
(c) Rutherford (रदरफोर्ड)
(d) Priestley (प्रीस्टले)
12. Tartaric Acid is obtained from -
टार्टरिक अम्ल किससे प्राप्त किया जाता है?
(a) Apple (सेब)
(b) Citrous Fruit (साइट्रस फल)
(c) Grapes (अंगूर) (d) Tomato (टमाटर)

13. The name hydrogen was proposed by हाइड्रोजन नाम किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया?
 (a) Bohr (बोर)
 (b) Rutherford (रदरफोर्ड)
 (c) Lavosier (लैवोजीयर)
 (d) Cavendish (कैवेंडिस)
14. The sweetest of all sugars is - मीठी चीनी है-
 (a) Glucose (ग्लूकोज) (b) Lactose (लैक्टोज)
 (c) Sucrose (सूक्रोज) (d) Fructose (फ्रूक्टोज)
15. Global warming may result in - भूमंडलिय तापक्रम वृद्धि का परिणाम किससे हो सकता है-
 (a) Flood (बाढ़) (b) Cyclone (चक्रवात)
 (c) Decrease in forest productivity (जंगल में उत्पादकता की कमी)
 (d) All of above (उपरोक्त सभी)
16. The discovery of viruses was made by - 'वायरस' की खोज किसके द्वारा हुई थी?
 (a) Ivanowski (इवानोवस्की)
 (b) Beijerinck (बेजेरीन्क)
 (c) Miller (मीलर)
 (d) Stanley (स्टनले)
17. Smallest organism which cause disease - सबसे छोटा जीव जिससे बिमारी होती है-
 (a) Bacteria (बैक्टेरिया)
 (b) Virus (वायरस)
 (c) Mycoplasm (मायकोप्लाज्म)
 (d) All of above (उपरोक्त सभी)
18. Due to bite of mad dog the disease hydrophobia is caused by पागल कुत्ते के काटने से हाइड्रोफोबिया बिमारी की वजह है-
 (a) Rabies Virus (रेबिज वायरस)
 (b) Adeno Virus (एडीनो वायरस)
 (c) Polio Virus (पोलियो वायरस)
 (d) Influenza (इन्फ्ल्यूंजा)
19. The disease AIDS spread AIDS बिमारी किससे फैलती है -
 (a) By insects (किड़ों के काटने से)
 (b) By breathing (साँस लेने से)
 (c) By Sexual Contact (यौन संबंध से)
 (d) None of these (कोई नहीं)
20. Infectious disease small pox is caused due to -
 चेचक जो एक संक्रमण बिमारी है, उसकी वजह है-
 (a) Virus (वायरस) (b) Bacteria (बैक्टेरिया)
 (c) Fungi (फफूंदी) (d) Algae (शैवाल)
21. Pulses are good souce of दालें किसका मुख्य श्रोत हैं?
 (a) Protein (प्रोटीन)
 (b) Carbohydrate (कारबोहाइड्रेट)
 (c) Fat (वसा)
 (d) Cellulose (सैल्यूलोज)
22. Which one of following is good source of protein? निम्नलिखित में से कौन प्रोटीन का मुख्य स्रोत है?
 (a) Gram (चना) (b) Pea (मटर)
 (c) Soyabean (सोयाबीन)
 (d) Pigeon Pea (छोटी मटर)
23. Indian produces the maximum amount of - भारत में सर्वाधिक मात्रा में उपज किसकी होती है?
 (a) Potato (आलू)
 (b) Sweet Potato (मीठा आलू)
 (c) Tea (चाय) (d) Corn (कॉर्न)
24. Major 'Basmati Rice is produced in state - सबसे ज्यादा बासमति चावल की उपज किस राज्य में होती है?
 (a) Kerala (केरल)
 (b) Andhra Pradesh (आंध्र प्रदेश)
 (c) Karnataka (कर्नाटक)
 (d) Uttar Pradesh (उत्तर प्रदेश)
25. Litmus is obtained from - लिटमस किससे प्राप्त किया जाता है?
 (a) Bacteria (बैक्टेरिया)
 (b) Fungi (फफूंदी)
 (c) Algae (शैवाल)
 (d) Lichen (शैवाक)

MATHEMATICS (गणित)

1. What least number of five digits is exactly divisible by 41?
पाँच अंकों की वह कौन सी छोटी से छोटी संख्या है जो 41 से पूर्ण विभाजित है?
(a) 10045 (b) 10004
(c) 10041 (d) 10025
2. The largest four digits number exactly divisible by each of 12, 15, 18 and 27 is
चार अंकों की वह कौन सी बड़ी संख्या है जो 12, 15, 18 और 27 से विभाजित है-
(a) 9690 (b) 9720 (c) 9930 (d) 9960
3. The sum of the H.C.F. and L.C.M. of two numbers is 680 and the L.C.M. is 84 times the H.C.F. If one of the number is 56, the other is :
दो संख्याओं के म. स. एवं ल. स. का योग 680 है एवं ल. स. म. स. का 84 गुणा है। अगर एक संख्या 56 है तो दूसरी संख्या है-
(a) 8 (b) 12 (c) 84 (d) 96
4. If two numbers are in the ratio 5 : 7 and their L.C.M. is 315, then their product is -
अगर दो संख्याओं का अनुपात 5 : 7 है एवं उनका ल. स. 315 है तो उन संख्याओं का गुणनफल होगा-
(a) 2358 (b) 2385
(c) 2538 (d) None of these (कोई नहीं)
5. 280 oranges are divided among 50 girls and boys so that each boy gets 5 oranges and each girl gets 7 oranges. How many girls are there ?
280 संतरा 50 लड़के और लड़कियों में बाँटा गया प्रत्येक लड़के को 5 संतरे और प्रत्येक लड़कियों को 7 संतरे मिले तो वहाँ कितनी लड़कियाँ होंगी?
(a) 40 (b) 15 (c) 35 (d) 60
6. Solve it / सरल करें
$$7\frac{1}{2} - \left[2\frac{1}{4} \div \left\{ 1\frac{1}{4} - \frac{1}{2} \left(1\frac{1}{2} - \frac{1}{3} - \frac{1}{6} \right) \right\} \right]$$

(a) $\frac{2}{9}$ (b) 1 (c) $4\frac{1}{2}$ (d) $1\frac{77}{288}$
7. If $a + b = 5$ and $3a + 2b = 20$ then $(3a + b) = ?$
अगर $a + b = 5$ और $3a + 2b = 20$ है तो $(3a + b) = ?$
(a) 10 (b) 15 (c) 20 (d) 25
8. $\sqrt{\sqrt{2500} + \sqrt{961}} = (?)^2$
(a) 81 (b) 3 (c) 10 (d) 9
9. What is the smallest number by which 3600 must be divided to make it a perfect cube?
वह कौन सी छोटी संख्या है, जिससे 3600 को विभाजित करने पर एक पूर्ण घन बनाती है?
(a) 9 (b) 50 (c) 300 (d) 450
10. Find the average of all the numbers between 6 and 34 which are divisible by 5
6 एवं 34 के बीच 5 से विभाजित होने वाले सभी संख्याओं का औसत निकालें।
(a) 9 (b) 20 (c) 39 (d) 66
11. Hitesh is 40 years old and Ronnie is 60 years old. How many years ago was the ratio of their ages 3 : 5?
हीतेश 40 वर्ष का है एवं रोनी 60 वर्ष का है। कितने वर्ष पहले दोनों के उम्रों का अनुपात 3 : 5 था?
(a) 5 Yrs. (वर्ष) (b) 10 Yrs. (वर्ष)
(c) 20 Yrs. (वर्ष) (d) 37 Yrs. (वर्ष)
12. If 20% of A = 30% of B = $\frac{1}{6}$ of C, then A : B : C is ?
यदि A का 20% = B का 30% = C का $\frac{1}{6}$ हो तो A : B : C क्या होगा?
(a) 2 : 3 : 16 (b) 3 : 2 : 16 ()
(c) 10 : 15 : 18 (d) 15 : 10 : 18
13. By selling toffees at 20 for a rupee, a man losses 4%. In order to gain 20%, how much for a rupee must he sell?
1 रुपये में 20 चॉकलेट बेचने पर एक व्यक्ति को 4% की हानि होती है तो 20% की लाभ के लिए 1 रु. में कितने चॉकलेट बेचनी होंगी?
(a) 16 (b) 125 (c) 26 (d) 10

14. A and B can do a piece of work in 12 days B and C can do it in 15 days and C and A can do it in 20 days. A alone can do the work in -
अ और ब 12 दिन में किसी काम को करते हैं। ब एवं स इसे 15 दिनों में करते हैं। स एवं अ इसे 20 दिनों में करते हैं तो अ अकेला उसे कितने दिनों में करेगा
- (a) $15\frac{2}{3}$ days (दिन) (b) 24 days (दिन)
(c) 30 days (दिन) (d) 40 days (दिन)
15. Two trains approach each other at 30 km/hr and 27 km/hr from two places. 342 km apart. After how many hours will they meet?
342 कि.मी. की दूरी से दो ट्रेने 30 कि.मी./घंटा एवं 27 कि.मी./घंटा की रफ्तार से एक दूसरे की तरफ चलती है तो कितने घंटे बाद वे एक दूसरे से मिलेगी।
- (a) 5 hrs. (घंटे) (b) 6 hrs. (घंटे)
(c) 7 hrs. (घंटे) (d) 12 hrs. (घंटे)
16. A train 132 m long passes a Telegraph post in 6 seconds. The speed of the train is
एक ट्रेन जो 132 मीटर लम्बी है एक टेलीग्राफ खंभे को 6 सेकण्ड में पार करती है तो ट्रेन की गति क्या है?
- (a) 70 km/hr (70 कि.मी./घंटा)
(b) 72km/hr (72 कि.मी./घंटा)
(c) 79.2 km/hr (79.2 कि.मी./घंटा)
(d) 80 km/hr (80 कि.मी./घंटा)
17. A sum when reckoned at 12% S.I. amounts to Rs. 2405 in 4 years. Find the sum?
एक रकम जब 12% साधारण ब्याज की दर से 4 वर्षों के लिये लगाया जाता है तब वह 2405 रु. हो जाता है तो वह रकम कितनी है?
- (a) Rs. 1625 (1625 रु.)
(b) Rs. 260 (260 रु.)
(c) Rs. 280 (280 रु.)
(d) Rs. 756 (756 रु.)
18. A sum of money at simple interes amounts to Rs. 2240 in 2 years and Rs. 2600 in 5 years, The sum is
एक रकम साधारण ब्याज की दर से दो वर्षों में 2240 रु. एवं पाँच वर्षों में 2600 रु. हो जाता है तो वह रकम है?
- (a) Rs. 1880 (1880 रु.) (b) Rs. 2000 (2000 रु.)
(c) Rs. 2120 (2120 रु.) (d) Rs. 2800 (2800 रु.)
19. $\frac{3}{8} + \frac{1}{2}$ of $\frac{3}{16} = ?$ / $\frac{3}{8} + \frac{1}{2}$ का $\frac{3}{16} = ?$
- (a) $\frac{15}{16}$ (b) $\frac{21}{128}$ (c) $\frac{15}{32}$ (d) $\frac{3}{4}$
20. Find the cost of carpeting a room 12 m Long and 8 m broad with a carpet 75 cm wide at Rs. 20 per m²
12 मीटर लम्बे एवं 8 मीटर चौड़े एक कमरे में कालीन लगाने का खर्च क्या होगा? जब 75 से.मी. चौड़े कालीन 20 रु. प्रति वर्ग मीटर की दर से उपलब्ध है।
- (a) Rs. 2560 (2560 रु.) (b) Rs. 750 (750 रु.)
(c) Rs. 570 (570 रु.) (d) Rs. 870 (870 रु.)
21. Find the area of a rhombus, one side of which measures 20 cm and one diagonal 24 cm.
एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जब एक भुजा 20 से.मी. की है एक विकर्ण 24 से.मी. का है।
- (a) 384 cm² (384 से.मी²) (b) 300 cm² (300 से.मी²)
(c) 483 cm² (483 से.मी²) (d) 834 cm² (834 से.मी²)
22. Find the value of x if $x - 3 = \frac{10}{x}$
का मान ज्ञात करें यदि $x - 3 = \frac{10}{x}$
- (a) 5 (b) 4 (c) 2 (d) 0
23. If the radius of a circle is increased by 50%, the area will increased bypercent
अगर किसी वृत्त के त्रिज्या को 50% बढ़ा दिया जाये तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जायेगी?
- (a) 200% (b) 125%
(c) 150% (d) 100%
24. A lead cylinder with radius 3 cm and height 4 cm is melted and all the lead so obtained is molded into a ball what is the radius of the ball?
एक शीशे के बेलन की त्रिज्या 3 से.मी. है और ऊँचाई 4 से.मी. , जिसे गलाकर एक गेंद बनाई जाती है उसे गेंद की त्रिज्या क्या होगी?
- (a) 3cm (3 से.मी.) (b) 6cm (6 से.मी.)
(c) 9cm (9 से.मी.) (d) None of these (कोई नहीं)
25. The value fo log (1000 x 100) is -
log (1000 x 100) का मान क्या होगा?
- (a) 5 (b) 4
(c) 3 (d) 2

ENGLISH (अंग्रेजी)

1. Write an essay on any one of the following in about 150 words. (4 Marks)
 - (a) Student Life
 - (b) The Internet
2. Write a letter to a newspaper, about a bad piece of road that is in need of repair (in about 100 word). (4 Marks)
3. Write down synonyms of the following. (2 Marks)
 - (a) Hazardous
 - (b) Hijack
 - (c) Diagnose
 - (d) Eruption
4. Write the antonymus of the followings words. (2 Marks)
 - (a) Deliver
 - (b) Entire
 - (c) Economical
 - (d) Activity
5. Write one words for given group of words. (2 Marks)
 - (a) A short journey for pleasure.
 - (b) Science of weight.
 - (c) Reasoning power of the mind.
 - (d) Fear of dead body.
6. Fill in the blanks with appropriate preposition. (2 Marks)
 - (a) She is proudher wealth.
 - (b) He is enviousmy achievements.
 - (c) He was astonished.....the sad news.
 - (d) He is tired.....poverty.
7. Change into passive voice. (2 Marks)
 - (a) Don't insult the poor.
 - (b) Mr. Thakur had been writing this book for six months.
 - (c) Everyone will do his homework.
 - (d) Tell her to read the Gita.
8. Change into indirect speech. (2 Marks)
 - (a) They said, "We cannot live without water"
 - (b) He said to me, "I shall write a letter"
 - (c) He said "I had to do the work"
 - (d) He said, "I went to Patna Yesterday"
9. Make sentences from the following phrases. (2 Marks)
 - (a) Hue and Cry
 - (b) As a matter of fact
 - (c) Above Board
 - (d) On the alert
10. Translate into English (3 Marks)
 - (a) ओह! आज मौसम कितना अच्छा है।
 - (b) लड़के तो लड़के, लड़कियाँ भी अंतरिक्ष में जाने लगी है।
 - (c) मैं अधिक से अधिक पचास रुपये दे सकता हूँ।
 - (d) इससे हम तरह-तरह की शिक्षा ग्रहण करते हैं।
 - (e) बचपन में ही इनके पिता-माता का देहान्त हो गया था।
 - (f) कृपया वापसी डाक से उत्तर दें।

HINDI (हिन्दी)

1. निम्नलिखित में से किसी एक पर 150 शब्दों में निबंध लिखें। (4 अंक)
 - (a) भ्रष्टाचार
 - (b) समाजवाद
2. किसी दुर्घटना का वर्णन करते हुए अपने मित्र को पत्र लिखें। (लगभग 100 शब्दों में) (3 अंक)
3. निम्नलिखित शब्दों के संधि विच्छेद करें। (2 अंक)

क. अभिषेक	ख. महोदय
ग. नायक	घ. पवित्र
4. निम्नलिखित शब्दों के समास विग्रह करें- (2 अंक)

क. चौराहा	ख. कठफोड़वा
ग. कपड़ा-लत्ता	घ. गिरिधर
5. निम्नलिखित शब्दों के चार-चार पर्यायवाची शब्द लिखें। (2 अंक)

क. मृत्यु	ख. वारिश
ग. ब्राह्मण	घ. मुनि
6. निम्नलिखित अशुद्ध वाक्य को शुद्ध वाक्य में लिखें। (2 अंक)
 - क. हमारे सामानों का ख्याल रखियेगा।
 - ख. राधा ने माला गूँध ली।
 - ग. उपस्थित लोगों ने संकल्प लिया।
 - घ. राजेश अग्रिम बुधवार को आएगा।
7. रिक्त स्थानों को पूर्ति कीजिए (2 अंक)
 - क. योग साधना मेंऔर शाकाहार का विशेष महत्व है।
 - ख. इस घटना में किसीउपद्रव के बीज निहित हैं।
 - ग. अगर अभाव न हो तो.....कौन पूछें?
 - घ. विदूषक को देखकर दर्शकों नेकिया।
8. निम्न विशेष्य से विशेषण बनायें। (2 अंक)

क. चुगली	ख. तबला
ग. कौमार्य	घ. इंद्रिय
9. निम्नलिखित मुहावरों का वाक्य प्रयोग द्वारा अर्थ स्पष्ट करें। (2 अंक)

क. गुड़ गोबर करना	ख. चाँद पर थूकना
ग. घड़ों पानी पड़ जाना	घ. अंगूठा चूमना
10. निम्नलिखित दोहे का अर्थ 100 शब्दों में स्पष्ट करें। (3 अंक)
 - क. जो रहीम उत्तम प्रकृति, का करि सकत कुसंग।
चंदन विष व्याप्त नहीं, लपटे रहत भुजंगा॥